

RNI No. : RAJHIN/2012//50791

ISSN : 2278-6392

शिक्षा की बुनियाद

हिंदी त्रैमासिक | वर्ष : 3 | अंक : 10 | 11 अक्टूबर, 2014 | उदयपुर | ₹ 200(वार्षिक)



विद्या भवन
ओम्नायटी



Azim Premji
University

वे सदा हमारे साथ रहेंगे...



**डॉ. हृदय कांत
दीवान 30**

सितम्बर 2014
को औपचारिक
रूप से विद्या

भवन से सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में पीएच.डी. करने के बाद मध्यप्रदेश की शैक्षिक संस्था 'एकलव्य' से जुड़कर लगभग 15 वर्षों तक स्कूली शिक्षा के अनेक पहलुओं पर कार्य किया। इसके पश्चात आपने विद्या भवन में व्यवस्था सचिव के नाते काम संभाला। बाद में आप संस्था के शिक्षा सलाहकार बने। विद्या भवन शिक्षा संदर्भ केंद्र की स्थापना में आपका उल्लेखनीय योगदान रहा है। विद्या भवन के प्रकाशनों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। शिक्षा में नवाचार और शोध के क्षेत्र में आप निरंतर महत्वपूर्ण कार्य करते रहे हैं और आज भी सक्रिय हैं। 'हार्डी' के नाम से मशहूर डॉ. हृदय कांत दीवान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, देशभर की एक पूरी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत और मागदर्शक साथी के रूप में सदा हमारे साथ होंगे।



**डॉ. (श्रीमती) विश्व
विजया सिंह एम.ए.,**

एम.एड. और शिक्षा में
पीएच.डी. हैं। आप
1970 से 2004

तक विद्या भवन स्कूल से जुड़ी रहीं। अध्यापक से आरंभ करके आपने नर्सरी एवं जूनियर स्कूल की प्रधानाध्यापिका पद की जिम्मेदारी भी संभाली। 2001 से 2014 तक सेप्टी कंसर्न सेंटर के समन्वयक के दायित्व के साथ-साथ, सेंटर की पत्रिका 'दो टूक बात' के नौ अंकों का संपादन भी किया। विद्या भवन विद्या बंधु संघ की वार्षिक पत्रिका 'मुख-पत्र' की 11 वर्षों तक संपादक रहीं। आपने स्कूल की पत्रिका 'गुंजन' का भी संपादन किया। न्यूजलेटर 'खोज-खबर' के संपादन मंडल की 11 वर्षों तक सदस्य रहीं। 'खोज-बीन' में सह-संपादक तथा 'बुनियादी शिक्षा' की संपादकीय टीम में सदस्य रहीं। 'खोजें और जानें' में आप संपादन टीम की सदस्य रहीं हैं। देश की प्रतिष्ठित शैक्षिक पत्रिकाओं में आपके शैक्षिक आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। 30 जून, 2014 को औपचारिक रूप से आप विद्या भवन से सेवानिवृत्त हो गई हैं। विदुषी के रूप में आपकी स्मृति सदैव हमारे बीच रहेगी।



**श्री भागचंद्र
कुमावत 38**

वर्षों की लम्बी
सेवा के बाद

30 जून 2014 को विद्या भवन से सेवानिवृत्त हो गए। आपने एम.ए., एम.एड. तक शिक्षा प्राप्त की। आपने लगभग 30 वर्षों तक विद्या भवन के बुनियादी स्कूल में अध्यापन किया। उसके बाद विद्या भवन के प्रकाशन विभाग से जुड़े। आपने विद्या भवन की शैक्षिक पत्रिकाओं 'बुनियादी शिक्षा' तथा 'खोज-बीन' की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागचंद्र जी ने 'खोजें और जानें' के समन्वयक एवं 'शिक्षा की बुनियाद' के संपादक के दायित्व को भी बखूबी निभाया। विद्या भवन बेसिक स्कूल में बुनियादी तालीम और विद्या भवन गांधी शिक्षा अध्ययन संस्थान की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप हंसमुख एवं मिलनसार सहकर्मी के रूप में हमेशा याद आते रहेंगे।

'शिक्षा की बुनियाद' आप सबके अतुलनीय योगदान के लिए आभारी है।



Azim Premji
University

DISCOVER YOUR INTERESTS. EXPLORE THE UNUSUAL.



**Azim Premji University invites applications to its
Undergraduate programme in the Humanities,
Sciences & Social Sciences.**

**For more details, log on to azimpremjiuniversity.edu.in/ug
or write to us at ugadmissions@apu.edu.in**

**Azim Premji University
PES - IT Campus, Pixel Park, B Block, Electronics City, Hosur Road, Bengaluru – 560100**

गणित की किताब

तूने अब फिसलना भले ही छोड़ दिया हो
पर फिसलपट्टी ने
तेरा साथ नहीं छोड़ा है
वह तेरी गणित की किताब में
वर्गमूल का चिह्न हो गई है

कभी जमीन छूता
कभी आसमान होता—
सी साँ
गुणा का चिह्न बन गया है

और हर वक्त टप्पे खाती
लुढ़कती तेरी गेंद
अंकों को अनंत तक
दौड़ाने में दक्ष हो गई है
अब शून्य कहलाती है

तेरे आईसक्रीम का कोन
बदल गया है शंकु में

तेरे चित्रों के सारे पहाड़
अब त्रिभुज बन गए हैं
और उगता हुआ सूरज
वृत्त के रूप में पूरा उग चुका है

हेमंत देवलेकर

स्कूली शिक्षा में कला और नाटक से सरोकार।
उज्जैन में निवास।

